



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25—दिसम्बर 1, 2006 (अग्रहायण 4, 1928)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25—DECEMBER 1, 2006 (AGRAHAYANA 4, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	935	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संच शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1211	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, निवर्तक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 3569
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1705	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 783
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 11249
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 727
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संच शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण *
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संच शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*	

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

Page No.		Page No.
	PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	935
	PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	1211
	PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	9
	PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	1705
	PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*
	PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*
	PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*
	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, By-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*
	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*
	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	3569
	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	783
	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	11249
	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	727
	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] .

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

सं. 1/2/2006-सी.टी.-2--निम्नलिखित सदस्य को 26.06.2006 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा पुनर्गठित कपास सलाहकार बोर्ड में तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है :--

1. श्री चिताकुंत श्रीनिवास रेड्डी,  
आवास सं. 2589, सी. पी. थिम्मा रेड्डी,  
अल्लागढ़ा, जिला-करनूल,  
आन्ध्र प्रदेश

सदस्य

2. कपास सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 26.06.2006 की अधिसूचना सं. 1/2/2006-सी.टी.-II ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित हो गई है।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्ति को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुदृप्त राय, संयुक्त सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

संकल्प

विषय : "इस्पात उपभोक्ता परिषद्" के गठन के बारे में।

सं. 5/3/2004-डी-I.--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006, 15 मई, 2006 व 27 जून 2006 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के संकल्प के पैरा संख्या 7 के तहत "इस्पात उपभोक्ता परिषद्" में संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी नामित करने का निर्णय लिया गया है:-

क.

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नामित सदस्य (सदस्यों) का नाम एवं पता	अभियुक्ति
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	1. श्री एच. आर. ओर्बिंग, मार्फत ओसियन सायबर कैफे-कम-पीसीओ, सी-सैक्टर, ईटानगर, पेट्रोल पम्प के पास, पीओ/पीएस टीय नगर जिला पापूमपरे अरूणाचल प्रदेश-791111	श्री विद्या शंकर प्रसाद, ग्राम अदिनिगरो,  पोस्ट-नामसाई, जिला-लोहित, अरूणाचल प्रदेश के स्थान पर

1	2	3	4
2.	मणिपुर	1. श्री हवलियनथंग हंगहाल, टिपाईमुख रोड, पोस्ट-चूराचंदपुर-795128, मणिपुर	श्री नगईखोथंग हाओकिन, तुईबुअंग मुख्यालय, चूराचंदपुर जिला, पोस्ट-चूराचंदपुर मणिपुर तथा, श्री रामराउ लंगखम, डियूलाहलेन, इम्फाल, मणिपुर के स्थान पर
3.	नागालैंड	1. श्री पी. चार्ल्स, सातवां माइल, चुमकेडिमा, दीमापुर नागालैंड 2. सुश्री ए. वॉलिंग, हाउस नं. 240, केवीजा-यू, दीमापुर, नागालैंड	
4.	उत्तर प्रदेश	1. श्री हॉल्खोपाओं माते, एफ-4/ए-131, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-II, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005 (उ. प्र.) दूरभाष : 9810343363	
5.	पश्चिम बंगाल	1. सुश्री मीरा चक्रवर्ती, 137बी, झाउताला रोड, कोलकाता-700017 (दूरभाष : 033-22878060, 9339770125)	मो. शम्भुजामन, ग्राम नोरे, पोस्ट-केयाटला, पीएस-बरूईपोर, जिला - दक्षिण परगना, पश्चिम बंगाल के स्थान पर

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित राज्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा "इस्पात उपभोक्ता परिषद्" के सभी सदस्यों को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

कुमार अरविंद सिंह देव, संयुक्त सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2006

शुद्धि पत्र

क्र. सं. 4/1/2006-खान-II(एस एम)--भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड I, (अंग्रेजी पाठ) में खान मंत्रालय की दिनांक 17 जून, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाए :--

## परिशिष्ट-II में कॉलम 2 के प्रथम पैरा, पृष्ठ 26 में :--

के लिए

पढ़ा जाए

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) के पद के लिए रंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान तथा आंखों से संबंधित सभी अन्य परीक्षणों के लिए चिकित्सा मानकों का स्तर ऊँचा होगा।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) तथा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड से संबंध कनिष्ठ जल तथा भू-विज्ञानी और सहायक जल-भूविज्ञानी के पदों के लिए रंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान तथा आंखों से संबंधित सभी चिकित्सा मानकों का स्तर ऊँचा होगा।

भूपाल नंदा, उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. एफ. 9-37/2004-यू.3 (ए)--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, शोभित इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) को एतद्वारा अस्थाई रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिये उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नई श्रेणी के तहत उपरोक्त इन्स्टीट्यूट के यू.पी. तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से असम्बद्ध होने की तारीख से सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। यह दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की वार्षिक समीक्षा के शर्ताधीन होगा। पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त व परीक्षा समिति इस इन्स्टीट्यूट को प्रदान किए गए सम विश्वविद्यालय के दर्जे की समीक्षा करेगी।

(2) यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठंकन की क्रम संख्या 5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

(3) भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोभित इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) अथवा इसके किसी भी संघटक संस्थाओं को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेंगे।

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 नवम्बर 2006

सं. एफ. 9-9/2006-यू.3 (ए)--इस मंत्रालय के दिनांक 13.1.2003, 5.2.2003, 8.8.2003, 29.6.2004, 29.7.2004, 28.9.2004 और 11.9.2006 की अधिसूचना सं. 9--25/2000-यू.3 के अनुक्रम में और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा घोषित करती है कि निम्नलिखित दो संस्थाएं तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक के सामने दर्शाए गए नामों के अन्तर्गत अमृता विश्व विद्यापीठम, सम विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडू) के क्षेत्राधिकार में शामिल की जाती हैं :--

क्र. सं.	संस्था का वर्तमान नाम	संस्था का प्रस्तावित नाम
1.	अमृता शिक्षण महाविद्यालय, मैसूर	अमृता स्कूल ऑफ एजुकेशन, मैसूर
2.	अमृता महाविद्यालय, मैसूर	अमृता स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, मैसूर

(2) यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठंकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमृता विश्व विद्यापीठम, सम विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर अथवा उपरोक्त संस्थाओं को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेंगे।

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-12/2006-यू-3(ए)--इस मंत्रालय के दिनांक 6 मई, 2002 की अधिसूचना सं. एफ. 9-12/2001-यू-3 के अनुक्रम में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित 10 संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से सिम्बायोसिस इन्टरनेशनल एजुकेशनल सेंटर, सम-विश्वविद्यालय, पूणे के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा करती है :--

- (i) सिम्बायोसिस प्रबंधन और मानव संसाधन विकास केन्द्र
- (ii) सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस संस्थान
- (iii) सिम्बायोसिस टेलीकॉम प्रबंधन संस्थान
- (iv) सिम्बायोसिस प्रबंधन अध्ययन संस्थान
- (v) सिम्बायोसिस जनसंचार संस्थान
- (vi) सिम्बायोसिस संचालन प्रबंधन संस्थान
- (vii) सिम्बायोसिस सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र
- (viii) सिम्बायोसिस भू-सूचना विज्ञान संस्थान
- (ix) सिम्बायोसिस स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान
- (x) सिम्बायोसिस अभिकल्पना संस्थान

2. यह घोषणा डा अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिम्बायोसिस इन्टरनेशनल एजुकेशनल सेंटर, सम-विश्वविद्यालय, पूणे अथवा उपरोक्त संस्थानों/केन्द्र को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेंगे।

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 27th October 2006

No. 1/2/2006-CT-II.—The following Member is nominated to the Cotton Advisory Board, reconstituted vide Notification of even number dated 26-6-2006 with immediate effect :—

1. Shri Chithakunta Srinivasa Reddy, Member  
H. No. 2589, C. P. Thimma Reddy Street,  
Allagadda, Distt. Karnool,  
Andhra Pradesh

2. The Notification No. 1/2/2006-CT-II dated 26.06.2006 regarding reconstitution of Cotton Advisory Board Stands modified to the extent stated above.

Ordered that a copy of this Notification be communicated to the concerned.

Ordered also that it be published in the Gazette of India.

SUDRIPTA ROY, Jt. Secy.

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 6th October 2006

## RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumers' Council—regarding.

No. 5(3)/2004-D-I(.)—In continuation of Ministry of Steel's Resolution of even number dated 24th March, 2006, 15th May, 2006, and 27th June, 2006, the undersigned is directed to state that it has been decided to nominate the following persons also as representatives of respective States/Union Territories on Steel Consumers' Council, under Para 7 of Ministry of Steel's Resolution dated 24th March, 2006 :—

Sl. No.	State/U. Ts	Name & address of the nominated member(s)	Remarks
1	2	3	4
1.	Arunachal Pradesh	Shri H. R. Obing C/o Ocean cyber Café-cum-PCO C-sector, Itanagar, Near Petrol Pump, PO/PS Titanagar, Distt. Papumpare, Arunachal Pradesh-791111	vice Shri Bidya Shankar Prasad, Vill. Adinigro, P.O. Namsai, Distt. Lohit, Arunachal Pradesh
2.	Manipur	Shri Havlianthang Hanghal, Tipaimukh Road, P.O. Churachandpur-795128 Manipur	vice Shri Nguikhothang Haokin, Tuibuang Hqtrs, Churachand Pur District, P.O. Churachandpur, Manipur and Shri Ramrau Langkham, Deulahlane, Imphal, Manipur
3.	Nagaland	1. Shri P. Charles 7th Mile, Chumkedima, Dimapur, Nagaland  2. Ms. A. Walling, H. No. 240, Kevija-U, Dimapur, Nagaland	

1	2	3	4
4.	Uttar Pradesh	Shri Holkhopao Mate, F-4/A-131, Shalimar Garden Extension II, Sahibabad, Ghaziabad-201 005 (U.P.) (Phone : 9810343363)	
5.	West Bengal	Ms. Mira Chakraborty, 137B, Jhautala Road, Kolkata-700 017 (Phone : 033-2287 8060, 9339770125)	Vice Md. Shamsuzzaman, Vill. Nore. P.O. Keyatala, P. S. Baruiipor, Distt. South Parganas, West Bengal

## ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

KUMAR ARVIND SINGH DEO, Jt. Secy.

## MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 22nd November 2006

## CORRIGENDUM

No. 4/1/2006.M.II (SM).—In Ministry of Mines' Notification of even Number dated 17th June, 2006 published in the Gazette of India, Part I—Section 1, (English Version), the following changes shall be made:—

In Appenix II, in first Para of column 2 on page 26 :—

For

For the post of Geologist (Jr.) concerning Geological Survey of India, the medical standard in regard to colour perception and all other tests relating to eyes will be of high order.

Read

For the post of Geologist (Jr.) concerning Geological Survey of India and Junior Hydrogeologist and Asstt. Hydrogeologist concerning Central Ground Water Board, the medical standard in regard to colour perception and all other tests relating to eyes will be of high order.

BHUPAL NANDA, Dy. Secy.

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 8th November 2006

No. F.9-37/2004-U.3(A).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare the Shobhit Institute of Engineering and Technology, Meerut (Uttar Pradesh) as Deemed to be University under De-novo category for the purpose of the aforesaid Act from the date the Institute disaffiliates itself from U.P. Technical University, Lucknow (Uttar Pradesh), provisionally, for a period of five years subject to an annual review by an Expert Committee of UGC. After the period of five years, the 'Deemed to be University' status conferred upon the Institute shall be reviewed by a Review Committee to be appointed by the University Grants Commission (UGC).

2. This declaration is subject to conditions mentioned at S. No. 5 of the endorsement of this notification.

3. Government of India or the University Grants Commission will not provide any Plan or Non Plan grants to Shobhit Institute of Engineering and Technology, Meerut (U.P.) or any of its constituent institutions.

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.



New Delhi, the 10th November 2006

No. F. 9-9/2006-U.3(A).—In continuation of this Ministry's notifications No. 9-25/2000-U.3 dated 13.01.2003, 05.02.2003, 08.08.2003, 29-06.2004, 29.07.2004, 28.09.2004 and 11.09.2006 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that the following two institutions are included under the ambit of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Deemed-to-be-University, Coimbatore (Tamil Nadu), under new names indicated against each for the purposes of the aforesaid Act, with immediate effect :—

Present name of the Institution	Proposed new name of the Institution
1. Amrita Shikshana Maha Vidyalaya, Mysore	1. Amrita School of Education, Mysore
2. Amrita Maha Vidyalaya, Mysore	2. Amrita School of Arts & Sciences, Mysore

2. This declaration is subject to conditions mentioned at S. No. 4 of the endorsement of this notification.

3. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan or Non-Plan grants either to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Deemed-to-be-University, Coimbatore or to the aforesaid Institutions.

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

No. F. 9-12/2006-U.3(A).—In continuation of this Ministry's notifications No. 9-12/2001-U.3 dated 6th May, 2002 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that the following 10 institutes/centre are included under the ambit of Symbiosis International Educational Centre, Deemed-to-be-University, Pune for the purposes of the aforesaid Act with immediate effect :—

- (i) Symbiosis Centre for Management and Human Resource Development (SCMHRD)
- (ii) Symbiosis Institute of International Business (SIIB)
- (iii) Symbiosis Institute of Telecom Management (SITM)
- (iv) Symbiosis Institute of Management Studies (SIMS)
- (v) Symbiosis Institute of Mass Communication (SIMC)
- (vi) Symbiosis Institute of Operation Management (SIOM)
- (vii) Symbiosis Centre of Information for Technology (SCIT)
- (viii) Symbiosis Institute of Geoinformatics (SIG)
- (ix) Symbiosis Institute of Health Sciences (SIHS)
- (x) Symbiosis Institute of Design (SID)

2. This declaration is subject to conditions mentioned at S. No. 4 of the endorsement of this notification.

3. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan or Non-Plan grants either to Symbiosis International Educational Centre, Deemed University, Pune or to the aforesaid Institute Centre.

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006  
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006